

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 616]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर 2010—अग्रहायण 9, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010 (अग्रहायण 9, 1932)

क्र. 25245-वि.स.-विधान-2010.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 29 नवम्बर, 2010.

रामेश्वर ठाकुर  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.